

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 425]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-147/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत, फरसगांव, जिला कोण्डागांव (छ. ग.) के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. फरसगांव नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	महात्मा गांधी वार्ड
2	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
3	शिव मंदिर वार्ड
4	माँ दन्तेश्वरी वार्ड
5	सरदार भगत सिंह वार्ड
6	प्रियदर्शनी इन्दिरा गांधी वार्ड
7	माँ दुर्गा मंदिर वार्ड
8	माँ गायत्री मंदिर वार्ड
9	अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड
10	महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव वार्ड
11	जय बूढ़ादेव वार्ड
12	वीरांगना रानी दुर्गावती वार्ड
13	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
14	माँ तेलीनसती वार्ड
15	महाराणा प्रताप वार्ड

फरसगांव नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक -01 महात्मा गांधी वार्ड

- उत्तर में :- ग्राम पाटला ग्राम पतोड़ा व फरसगांव की सीमा के त्रिकुटी से पूर्व दिशा की ओर शमशान घाट से लगा हुआ फारेस्ट रोड से होते हुये फारेस्ट डिपो के उत्तर पूर्व कोने में एन.एच.30 के मिलान बिन्दु तक ।
- पूर्व में :- फारेस्ट डिपो एवं एन.एच. 30 की कोना से दक्षिण दिशा में एन.एच. 30 से होते हुये अनन्तदेव प्रसाद के मकान तक ।
- दक्षिण में :- एन.एच.30 के किनारे पर स्थित अनन्त देव प्रसाद के मकान से पश्चिम दिशा की ओर रेणु वर्मा एवं बुधियारीन बाई के मकान के कोने तक यहां से उत्तर दिशा की ओर मस्जिद गली के किनारे पर स्थित युसुफ के मकान तक यहां से पश्चिम दिशा की ओर मस्जिद गली के किनारे पर स्थित राजकुमार भारद्वाज के मकान के पास फारेस्ट रोड तिराहा होते हुए रिजर्व फारेस्ट, पतोड़ा एवं फरसगांव की त्रिकुटी तक ।
- पश्चिम में :- रिजर्व फारेस्ट, पतोड़ा एवं फरसगांव की त्रिकुटी से उत्तर दिशा की ओर फरसगांव पतोड़ा सीमा होते हुए फरसगांव, पाटला एवं पतोड़ा के त्रिकुटी तक ।

वार्ड क्रमांक -02 चन्द्रशेखर वार्ड

- उत्तर में :- फारेस्ट रोड एवं मस्जिद गली के कोने पर स्थित राजकुमार भारद्वाज के मकान तिराहे से पूर्व दिशा की ओर मस्जिद गली के किनारे पर स्थित युसुफ के मकान तक यहां से दक्षिण दिशा में बुधियारिन बाई एवं रेणु वर्मा के मकान के कोने तक, यहां से एन.एच 30 के किनारे पर स्थित अनन्त देव प्रसाद के मकान तक ।
- पूर्व में :- एन.एच.30 के किनारे पर स्थित अनन्तदेव प्रसाद के मकान से होते हुए दक्षिण दिशा की ओर एन. एच. 30 के किनारे पर स्थित थाना के उत्तरी सीमा एवं शान्तिमणी ठाकुर, दिलीप ठाकुर के मकान के कोने तक ।
- दक्षिण में :- एन.एच. 30 के किनारे पर स्थित थाना की उत्तरी सीमा एवं शान्तिमणी ठाकुर, दिलीप ठाकुर के मकान के कोने से पश्चिम दिशा की ओर स्थित थाना के सीमा से लगा हुआ पवन अरोरा के मकान तक यहां से दक्षिण दिशा की ओर चलकर थाना की सीमा से लगा हुआ मनोज नाग के मकान तक, यहां से पश्चिम दिशा की ओर फॉरेस्ट रोड के किनारे पर स्थित सोनु राम मरकाम के मकान तक ।
- पश्चिम में :- फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित सोनूराम मरकाम के मकान से उत्तर दिशा की ओर फारेस्ट रोड होते हुए फारेस्ट रोड एवं हुए मस्जिद गली के कोने पर स्थित राजकुमार भारद्वाज के मकान के तिराहे तक ।

वार्ड क्रमांक - 03 शिव मंदिर वार्ड

- उत्तर में :- फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित सोनु राम मरकाम के मकान से पूर्व दिशा की ओर थाना के सीमा से लगा हुआ मनोज नाग के मकान तक यहां से उत्तर दिशा की ओर थाना की सीमा से लगा हुआ पवन अरोरा के मकान तक यहां से पूर्व दिशा की ओर एन.एच. 30 पर थाना की उत्तरी सीमा के कोने पर स्थित शान्तिमणी ठाकुर ;दिलीप ठाकुर के मकान तक।
- पूर्व में :- एन.एच. 30 पर थाना की उत्तरी सीमा के कोने पर स्थित शान्ति मणी ठाकुर ;दिलीप ठाकुर के मकान से दक्षिण दिशा की ओर पुलिस थाना,पोस्ट ऑफिस,रेस्ट हॉउस एवं जनपद प्राथमिक शाला होते हुए एन.एच. 30 पर अस्पताल की ओर जाने वाली सी.सी. रोड के कोने पर स्थित कन्या हाई स्कूल तक।
- दक्षिण में :- एन.एच.30 एवं अस्पताल की ओर जाने वाली सी.सी रोड के मिलान बिन्दु कोने पर कन्या हाई स्कूल भवन से पश्चिम दिशा की ओर सी.सी.रोड होते हुये डॉ0पाढ़ी के मकान तक,यहां से सी.सी. रोड होते हुये उत्तर दिशा की ओर सोनबती के मकान तक, यहां से सी.सी. रोड होते हुये पश्चिम दिशा की ओर मानू राम के मकान तक, यहां से दक्षिण दिशा की ओर गौतम तारम के मकान तक, यहां से पश्चिम दिशा की ओर फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित सुनिता मंडल के मकान तक।
- पश्चिम में :- फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित सुनिता मण्डल के मकान से उत्तर दिशा की ओर फारेस्ट रोड होते हुए फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित सोनू राम मरकाम के मकान तक।

वार्ड क्रमांक -04 माँ दंतेश्वरी वार्ड

- उत्तर में :- फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित सुनिता मण्डल के मकान से पूर्व की ओर गौतम तारम के मकान तक, यहां से उत्तर की ओर मानू राम के मकान तक, यहां से पूर्व दिशा की ओर सी.सी.रोड होते हुये सोनबती के मकान तक,यहां से दक्षिण दिशा की ओर सी.सी. रोड होते हुये डॉ0 पाढ़ी के मकान तक, यहां से पूर्व दिशा की ओर सी.सी. रोड होते हुये अस्पताल की ओर जाने वाली सी.सी. रोड एवं एन.एच. 30 के मिलान बिन्दु पर स्थित कन्या हाई स्कूल तक।
- पूर्व में :- अस्पताल की ओर जाने वाली सी.सी. रोड एवं एन.एच. 30 के मिलान बिन्दु पर स्थित कन्या हाई स्कूल से दक्षिण दिशा की ओर एन.एच. 30 एवं शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क के तिराहे पर स्थित नन्द कुमार नागे के मकान तक।
- दक्षिण में :- एन.एच.30 एवं शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क के तिराहे पर स्थित नन्द कुमार नागे के मकान से पश्चिम दिशा की ओर शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क के होते हुये तिराहे पर स्थित डॉ.जुर्सी साहब के मकान तक।
- पश्चिम में:- शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क एवं भागरथी गली के तिराहे पर स्थित डॉ.जुर्सी साहब के मकान से उत्तर की ओर भागरथी गली होते हुये दिलिप निर्मलकर के मकान तक जो फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित है। यहां से फारेस्ट रोड होते हुये सुनिता मंडल के मकान तक।

वार्ड क्रमांक – 05 सरदार भगत सिंह वार्ड

- उत्तर में :- फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित दिलीप निर्मलकर के मकान से दक्षिण दिशा की ओर भागरथी गली होते हुये शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क के तिराहे पर स्थित डॉ. जुरी साहब के मकान तक, यहां से पूर्व दिशा की ओर एन. एच. 30 एवं शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क के तिराहे पर स्थित नन्द कुमार नागे के मकान तक।
- पूर्व में :- शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क एवं एन.एच. 30 के तिराहे पर स्थित नंदकुमार नागे के मकान से एन.एच. 30 एवं पम्प हाउस होते हुए दक्षिण दिशा की ओर एन.एच. 30 एवं कोर्बाड़गांव डब्ल्यू 0 बी 0 एम 0 तथा गट्टी पलना प्रधानमंत्री सड़क के चौराहे पर स्थित स्थित बिझवार निषाद के मकान तक।
- दक्षिण में :- एन.एच. 30 एवं कोर्बाड़गांव डब्ल्यू 0 बी 0 एम 0 तथा गट्टी पलना प्रधानमंत्री सड़क के चौराहे पर स्थित बिझवार निषाद के मकान से पश्चिम दिशा की ओर कोर्बाड़गांव, रिजर्व फारेस्ट एवं फरसगांव की त्रिकुटी तक।
- पश्चिम में :- कोर्बाड़गांव, रिजर्व फारेस्ट एवं फरसगांव की त्रिकुटी से उत्तर दिशा की ओर फारसगांव एवं कोर्बाड़गांव सीमा होते हुये शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क पर स्थित झाडु राम कुर्रे के मकान तक, यहां से पूर्व दिशा की ओर प्रधानमंत्री सड़क एवं फारेस्ट रोड के तिराहे पर स्थित वॉयल रॉबट के मकान तक, यहां से उत्तर दिशा की ओर फारेस्ट रोड होते हुये दिलीप निर्मलकर के मकान तक।

वार्ड क्रमांक – 06 :- प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी वार्ड

- उत्तर में :- एन.एच. 30 एवं बाजार रोड के तिराहे पर स्थित वन औषधालय कार्यालय से पूर्व दिशा की ओर बाजार रोड होते हुये सुकारो यादव के मकान तक, यहां से दक्षिण दिशा की ओर मानकी मंडावी के मकान तक, यहां से उत्तर दिशा की ओर सदाराम ध्रुव के मकान तक, यहां से पूर्व दिशा की ओर मंडी की ओर जाने वाली सी.सी. रोड एवं वाजपेयी गली के तिराहे पर स्थित मंशा राम मरकाम के मकान तक।
- पूर्व में :- मंडी की ओर जाने वाली सी.सी. रोड एवं वाजपेयी गली के तिराहे किनारे पर स्थित मंशा राम मरकाम के मकान से दक्षिण दिशा की ओर मंडी सी.सी. रोड होते हुये धर्म मंडावी के मकान तक, यहां से तालाब के बांध होते हुए दक्षिण की ओर फरसगांव सीमा पर चुंगी भरी एवं गट्टीपलना प्रधानमंत्री सड़क तिराहे पर स्थित मणी कंचन केन्द्र तक।
- दक्षिण में :- नगर पंचायत तिराहे फरसगांव के सीमा गट्टीपलना प्रधानमंत्री सड़क के एवं चुंगी भरी किनारे पर स्थित मणी कंचन केन्द्र से पश्चिम की ओर ख. क्र. 66/56 भागरथी एवं ख. क्र. 66/1 प्रवीर बदेशा के खेत से होते हुये एन.एच. 30 एवं गट्टीपलना प्रधानमंत्री सड़क के तिराहे पर स्थित तहसील कार्यालय तक।
- पश्चिम में :- गट्टीपलना प्रधानमंत्री सड़क एवं एन.एच. 30 के तिराहे पर स्थित तहसील कार्यालय से उत्तर की ओर पम्प हाउस एन.एच. 30 होते हुये बाजार रोड एवं एन.एच. 30 के तिराहे पर स्थित वन औषधालय के कार्यालय तक।

वार्ड क्रमांक – 07 माँ दुर्गा मंदिर वार्ड

- उत्तर में :- एन.एच. 30 एवं माकड़ी रोड के कोने पर स्थित जयराम सेलून के दुकान एवं बीट्टन बाई के मकान से होते हुए पूर्व की ओर माकड़ी रोड एवं मां दुर्गा मंदिर गली के पगदण्डी तिराहे पर स्थित धनसिंग हिडको के मकान तक
- पूर्व में :- माकड़ी रोड एवं मां दुर्गा मंदिर गली के पगदण्डी तिराहे पर स्थित धनसिंग हिडको के मकान से दक्षिण की ओर माँ दुर्गा मंदिर गली होते हुये ठाकुर राम एवं मधुकर सलाम के मकान तक यहां से पूर्व की ओर मानकुराम मरकाम एवं जगदीश शोरी के मकान होते हुए बाजार रोड एवं विडीयो हॉल गली के तिराहे पर स्थित जगतनाथ पुजारी के मकान तक, यहां से दक्षिण की ओर बाजार रोड होते हुये राबिया खान के मकान तक, यहां से पूर्व दिशा की ओर स्थित सदाराम ध्रुव के मकान तक।
- दक्षिण में :- सदाराम ध्रुव के मकान के पश्चिम की ओर मानकी मंडावी के मकान तक, यहां से उत्तर की ओर बाजार रोड पर स्थित सुकारो यादव के मकान तक यहां से पश्चिम की ओर एन.एच.30 एवं बाजार रोड तिराहे पर स्थित फारेस्ट औषधालय कार्यालय तक।
- पश्चिम में :- एन .एच. 30 एवं बाजार रोड के तिराहे में स्थित फारेस्ट औषधालय कार्यालय से उत्तर दिशा की ओर एन.एच.30 होते हुए एन.एच. 30 एवं माकड़ी रोड के तिराहे पर स्थित जयराम सेलून एवं बिट्टन बाई के मकान तक।

वार्ड क्रमांक –08 माँ गायत्री मंदिर वार्ड

- उत्तर में :- माकड़ी रोड एवं मां दुर्गा मंदिर गली के पगदण्डी तिराहे पर स्थित धनसिंग हिडको के मकान से पूर्व दिशा की ओर माकड़ी रोड के किनारे पर स्थित बुधराम कश्यप के मकान तक।
- पूर्व में :- माकड़ी रोड एवं वाजपेयी गली के तिराहे पर स्थित बुधराम कश्यप के मकान से दक्षिण दिशा की ओर वाजपेयी गली होते हुये विपिन नारायण वाजपेयी के घर तक।
- दक्षिण में :- विपिन नारायण वाजपेयी के मकान से पश्चिम की ओर होते हुये सदाराम ध्रुव के मकान तक यहां से होते हुये बाजार रोड पर स्थित राबिया खान के मकान तक।
- पश्चिम में :- बाजार रोड पर स्थित राबिया खान के मकान से उत्तर की ओर बाजार रोड एवं विडीयो हॉल के तिराहे पर स्थित जगतनाथ पुजारी के मकान तक यहां से पश्चिम दिशा की ओर जगदीश शोरी एवं मधुकर सलाम के मकान होते हुये माँ दुर्गा मंदिर गली पर ठाकुर राम के मकान तक यहां से उत्तर की ओर माकड़ी रोड एवं मां दुर्गा मंदिर गली के तिराहे पर स्थित धनसिंग हिडको के मकान तक।

वार्ड क्रमांक – 09 अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड

- उत्तर में :- माकड़ी रोड एवं वाजपेयी गली के तिराहे पर स्थित सोमारीबाई नेताम के मकान से होते हुए पूर्व दिशा की ओर माकड़ी रोड एवं मंडी सी.सी.रोड के तिराहे पर स्थित कृष्णा कोराम के मकान तक।
- पूर्व में :- माकड़ी रोड एवं मंडी सी.सी. रोड के तिराहे में स्थित कृष्णा कोराम के मकान से दक्षिण की ओर मंडी सी.सी.रोड होते हुये सांवत राम हिड़को के मकान तक, यहां से पूर्व की ओर तालाब के पानी निकासी नाली तक, यहां से दक्षिण दिशा की ओर बांध के मिलान बिंदु तक।
- दक्षिण में :- तालाब के पानी निकासी एवं बांध के मिलान बिंदु से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर मंडी की ओर जानेवाली सी.सी. रोड पर स्थित धनेश जैन के मकान तक।
- पश्चिम में :- मंडी की ओर जाने वाली सी.सी. रोड पर धनेश जैन के मकान से उत्तर दिशा की ओर मंशाराम मरकाम एवं विपीन बाजपेयी के मकान होते हुये माकड़ी रोड वाजपेयी गली पर स्थित सोमारी बाई नेताम के मकान तक।

वार्ड क्रमांक – 10 महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव वार्ड

- उत्तर में :- आर.इ.एस. कालोनी जाने वाले रोड के किनारे पर स्थित मेहत्तर के मकान से पूर्व दिशा की ओर आर.इ.एस. कालोनी होते हुये ख.क. 12/10 सोपसिंग के खेत जो चिचाड़ी नाला के निकट स्थित है।
- पूर्व में :- चिचाड़ी नाला एवं ख.क. 12/10 सोपसिंग के खेत से दक्षिण दिशा की ओर चिचाड़ी नाला से लगा हुआ ख.क. 12/12 मेहत्तर के खेत, ख.क. 12/3 गिल्लु का खेत, ख.क. 13/01, मेहरु के खेत जो माकड़ी सड़क से लगा हुआ है।
- दक्षिण में :- माकड़ी सड़क से लगा हुआ ख.क. 13/1 मेहरु के खेत से पश्चिम दिशा की ओर ख.क. 19/15 पंचु राम के खेत ख.क. 81/2, गांडो राम के खेत से गटटीपलना प्रधानमंत्री सड़क चुंगी भरी तिराहे पर स्थित घनश्याम के मकान तक।
- पश्चिम में :- गटटी पलना प्रधानमंत्री सड़क एवं चुंगी भरी के तिराहे पर स्थित मणी कंचन केन्द्र से उत्तर दिशा की ओर तालाब के बांध तक यहां से पूर्व की ओर नाली होते हुये सावन्त राम हिड़कों के मकान तक यहाँ से सी0सी0 रोड होते हुये माकड़ी रोड एवं मंडी सी.सी. रोड के तिराह पर स्थित कृष्णा कोराम के मकान तक यहां से पश्चिम दिशा की ओर माकड़ी रोड एवं आर. ई.एस.कालोनी रोड के तिराहे पर जालाम सिंह के मकान तक यहां से उत्तर दिशा की ओर आर.इ.एस.कालोनी रोड के किनारे पर स्थित मेहतर राम के मकान तक।

वार्ड क्रमांक -11 जय बूढ़ा देव वार्ड

उत्तर में :- ग्राम पाटला एवं चिचाड़ी नाला के सीमा में ख.क्र. 3 मंगलू राम की खेत से पूर्व दिशा की ओर चिचाड़ी नाला होते हुए ख.क्र. 4/11(ख) सुखविन्दर की खेत ख.क्र. 4/11 (क) मलविन्दर की खेत ख.क्र. 4/25 हरिराम की खेत तथा ख.क्र. 4/16 सुखलाल की खेत तक।

पूर्व में :- चिचाड़ी नाला के पास ख.क्र. 12/10 सोपसिंह की खेत से दक्षिण दिशा की ओर आर.ई.एस. कालोनी होते हुये आर.ई.एस. कालोनी की ओर जाने वाली रोड के किनारे पर स्थित सोपसिंह के मकान तक, यहां से माकड़ी रोड तथा आर.ई.एस.कालोनी की ओर जाने वाली रोड के तिराहे पर जालम सिंह के मकान तक।

दक्षिण में - माकड़ी रोड एवं आर.ई.एस. कालोनी के तिराहे पर स्थित जालम सिंह एवं मनीराम नेताम के मकान से पश्चिम दिशा की ओर माकड़ी रोड होते हुये माकड़ी रोड पर स्थित सोसायटी चौक चौराह तक।

पश्चिम में :- माकड़ी रोड एवं सोसाइटी चौक (चौराहा)से होते हुए उत्तर दिशा की ओर मोतीलाल नेताम बुधराम कोटवार के मकान, एवं कविलास ठाकुर के मकान होते हुये रोहित के मकान तक यहां से ग्राम पाटला एवं चिचाड़ी नाला के सीमा में ख.क्र.3 मंगलू राम की खेत तक।

वार्ड क्रमांक -12 वीरांगना रानी दुर्गावती वार्ड

उत्तर में :- एन.एच 30 झूलना डिही के तिराहे पर स्थित प्राथमिक शाला एवं सुकालू राम के मकान से पूर्व दिशा की ओर ख.क्र. 4/9 जंगलु के खेत तक।

पूर्व में :- पाटला एवं फरसगांव सीमा पर ख.क्र. 4/9 जंगलु के खेत से दक्षिण दिशा की ओर रोहित के मकान तक यहां से सोसायटी की ओर जाने वाली गली होते हुये, माकड़ी रोड एवं सोसाइटी चौक (चौराहा) तक।

दक्षिण में :- माकड़ी रोड एवं सोसायटी चौक चौराह से पश्चिम दिशा की ओर माकड़ी रोड होते हुये माकड़ी एवं एन.एच.30 के तिराहे पर स्थित जयराम सेलुन के दुकान तक।

पश्चिम में:- माकड़ी रोड एवं एन.एच 30 के तिराहे पर स्थित जयराम सेलुन के दुकान से उत्तर दिशा की ओर एन.एच.30 एवं झूलना डिही के तिराहे पर स्थित प्रा. शाला एवं सुकालु राम के मकान तक

वार्ड क्रमांक -13 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड

- उत्तर में :- चिचाड़ी नाला के पास फरसगांव ,चिचाड़ी एवं तोन्देपारा (पासंगी) के त्रिकुटी से पूर्व दिशा की ओर चिचाड़ी, बानगांव एवं तोन्देपारा (पासंगी) की त्रिकुटी तक, यहां से पूर्व की ओर होते हुये मेत्तर राम नेताम गली तथा परबानगांव कच्ची सड़क एवं वानगांव सरहदी गली के तिराहे तक यहां सक कुर्मीकोट की गली एवं बानगांव के तिराहे पा स्थित तिजोबाई के मकान तक ।
- पूर्व में :- कुर्मीकोट की गली एवं बानगांव सरहद की तिराह पर स्थित तिजोबाई के मकान से हलदेव पाण्डे के खेत पास रोड पर स्थित रपटा पुल तक ।
- दक्षिण में :- हलदेव पाण्डे के खेत पास माकड़ी रोड पर स्थित रपटा पुलिया से पश्चिम दिशा की ओर होते हुये माकड़ी रोड पर स्थित फरसगांव सरहद के पास खसरा क्रमांक 17/2 जंगलू के खेत तक ।
- पश्चिम में :- माकड़ी सड़क पर स्थित फरसगांव के सरहदी से उत्तर की ओर सरहदी के मिलान बिन्दु के पास खसरा क्रमांक 17/2 जंगलू के खेत से उत्तर दिशा की ओर चिचाड़ी नाला होते हुए चिचाड़ी नाला के पास फरसगांव, चिचाड़ी एवं तोन्देपारा (पासंगी) की त्रिकुटी तक ।

वार्ड क्रमांक - 14 माँ तेलीन सती वार्ड

- उत्तर में :- बानगांव डब्ल्यू.बी.एम. सड़क एवं भक्तूराम तथा नथलू के मकान से बानगांव डब्ल्यू.बी.एम. सरहदी सड़क होते हुए बानगांव सरहद के तिराहे पर स्थित कौशिक के मकान तक, यहां से होते हुए भवरदिह नदी के पास स्थित बानगांव, बरकई, पासंगी के त्रिकुटी तक ।
- पूर्व में :- भवरदिह नदी के पास स्थित बानगांव ,बरकई ,पासंगी के त्रिकुटी से दक्षिण दिशा की ओर भवरदिह नदी होते हुए फरसगांव ,माकड़ी रोड पर स्थित भवरदिह पुल तक ।
- दक्षिण में :- फरसगांव ,माकड़ी रोड पर स्थित भवरदिह पुल से पश्चिम दिशा की ओर माकड़ी ,फरसगांव मार्ग होते हुए बैजनाथ के मकान तक ।
- पश्चिम में :- माकड़ी एवं फरसगांव मार्ग पर स्थित बैजनाथ के मकान से उत्तर दिशा की ओर सकरी गली होते हुए डब्ल्यू.बी.एम. रोड पर स्थित भक्तू राम एवं नत्थलू के मकान तक ।

वार्ड क्रमांक -15 महाराणा प्रताप वार्ड

उत्तर में :- माकड़ी रोड पर स्थित फरसगांव सरहद के मिलान बिन्दु के पास खसरा क्रमांक 17/2 जंगलू के खेत से पूर्व दिशा की ओर माकड़ी रोड होते हुये रपटा पुलिया तक, यहां से उत्तर दिशा की ओर बानगांव डब्ल्यू.बी.एम. रोड एवं कुर्मीकोट गली के तिराहे पर स्थित तिजोबाई के मकान तक यहांसे पूर्व दिशा की ओर डब्ल्यू.बी.एम. रोड होते हुये बानगांव सरहद डब्ल्यू.बी.एम. रोड एवं सरादु गली के तिराहे पर भक्तु एवं नत्थलू के मकान तक ।

पूर्व में :- बानगांव सरहद डब्ल्यू.बी.एम. रोड पर स्थित सरादु गली के तिराहे पर भक्तु एवं नत्थलू के मकान से दक्षिण दिशा की ओर सरादु गली होते हुए माकड़ी रोड तथा सरादु गली के तिराहेपर रामेश्वर के मकान तक, यहां से पूर्व दिशा की ओर भवरदिह नदी के पुलिया तक यहां से दक्षिण दिशा की ओर भवरदिह नदी होते हुये भवरदिह नदी के पास स्थित बरकई जुगदायी एव पासंगी के त्रिकुटी तक ।

दक्षिण में :- भवरदिह नदी के पास स्थित बरकई, जुगदई एवं पासंगी की त्रिकुटी से पश्चिम दिशा की ओर जुगदई एवं पासंगी सरहद होते हुए चिचाड़ी नाला के पास स्थित जुगदई गट्टीपलना, पासंगी की त्रिकुटी तक ।

पश्चिम में :- चिचाड़ी नाला के पास स्थित जुगदई एवं पासंगी, गट्टीपलना की त्रिकुटी उत्तर दिशा की ओर चिचाड़ी नाला होते हुये माकड़ी रोड पर स्थित फरसगांव सरहद के मिलान बिन्दु के पास खसरा क्रमांक 17/2 जंगलू के खेत तक ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक एफ 1-147/2019/18 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-147/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

NOTIFICATION

No. F 1-147/2019/18.- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Pharasgaon Distt Kondagaon as per shedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Pharasgaon into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Mahatma Gandhi Ward
2	Chandra Shekhar Azad Ward
3	Shiv Mandir Ward
4	Maa Danteswari Ward
5	Sardar Bhagat Singh Ward
6	Priyadarshini Indira Gandhi Ward
7	Maa Durga Mandir Ward
8	Maa Gayatri Mandir Ward
9	Atal Bihari Bajpai Ward
10	Maharaja Praveer Chand Bhanj Dew Ward
11	Jai Budha Dev Ward
12	Veerangana Rani Durgawati Ward
13	Netaji Subhash Chandra Bose Ward
14	Maa Telin Sati Ward
15	Maharana Pratap Ward

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Pharasgaon**WARD NO. 1. MAHATAMA GANDHI WARD**

- North – From the trikuti of the border of village Patala, Patoda & Pharasgaon to the east of funeral ceremony spot towards forest road up to corner of forest depo & N.H. – 30.
- East – From the corner of N.H.-30 & forest Depo up to the house of Anant deo prasad at N.H.- 30 in south.
- South – From the house of Anant deo prasad at N.H.- 30 to the corner of house of Renu varma & Budhiyarini Bai from here to the house of Yusuf at Masjid gali in the north and up to the Rajkumar Bhardwaj's house at Masjid gali. Onward to the trikuti of reserve forest, Patoda & Pharasgaon .
- West – From the trikuti of reserve forest patoda and Pharasgaon onward to the north at the border of Patoda and Pharasgaon upto the trikuti of Pharasgaon, Patal and Patoda.

WARD NO. – 2 CHANDRASHEKAR AZAD WARD

- North – From the east of house of Rajkumar Bhardwaj situated at the corner of forest road and Masjid gali up to the house of Yusuf in the east at Masjid gali. From here from corner of Renu Verma and Budhiyarini Bai's house situated in the south upto the house of anant deo prasad at N.H.- 30.
- East - From the house of anant deo prasad (in the corner of N.H.-30) up to the border of police station in the corner of N.H.-30 and the house of Santi mani takur (Dilip takur).
- South – From the border of police station situated at N.H. – 30 and the corner of the house of Santi mani takur to Pawan arrora's house at the border of police station onward to the south from here to the house of Manoj Nag at police station border up to the house of Sonu Ram markam in west side of the forest road.
- West – From Sonu Ram Markam's house on the forest road upto Rajkumar Bhardwaj's house situated at the Masjid gali & forest road in the north.

WARD NO. – 3 SHIV MANDIR WARD

- North – From the east side of Sonu Ram Markam's house (on the forest road) up to the police station border, from here in the east attached to the border of police station up to the house of Manoj nag from here to the east side attached to the border of police station up to the house of Pawan arrora, from here in the east side to N.H.-30 on the corner of Police station and Santi mani takur's house (Dilip takur) .
- East – From the house of Santi Mani Thakur situated at the corner at N.H.-30 and border of Police Station Via Police Station, Post Office, Rest House and Janpat Prathamik School , N.H.-30 and Hospital road up to Girls High School situated at the corner of the C.C. road.
- South – The road leading to the N.H. –30 and Hospital, up to High School building at C.C. road to the house of Dr. Padhi in the west, from here onward C.C. road up to the house of Sonbati in the North, from here in the west side along with C.C. road up to Manu Ram's house, from here up to the house of Gautam taram in th south and up to house Sunita Mandal at forest road in the west.
- West – From Sunita Mandal's house situated at the forest road through forest in the north side of Sonu Ram Markam's house at forest road.

WARD NO-4 MAA DANTESHWARI WARD

- North – From Sunita Mandal's house at forest road in the east to the house of Gautam taram, from here Manu Ram's house in the north, from here in the east side via C.C. road, from here in the south direction Dr. Padhi's house situated at the C.C. road. In the east side by C.C. road to Hospital, C.C. road to Girls High School is situated at the corner of C.C. road and NH-30.
- East – From the Girls High School situated at the corner of the C.C. road (leading to hospital and NH-30) to the house of Nand Kumar Nage on the corner of NH-30 and Sankarpur Pradhanmantri sadak.
- South – In the west side, from the house of Nand Kumar Nage situated at the corner of NH-30 and Sankarpur Pradhanmantri sadak up to Dr. Juri's house on the Sankarpur P.M. sadak .
- West – In the north side from Dr. Juri's house situated at the corner of sankarpur P.M. sadak up to the house of Dilip Nirmalkar at forest road. From forest road up to Sunita Manadal's house.

WARD NO-5 SARDAR BAGAT SINGH WARD

- North – From Dilip Nilmarkar's house, on the forest road to south ward up to Dr. Jurri's house situated on the Sankar pur P M SADAK . From here to Nand Kumar Nage's house situated on the corner of the N H 30 and Shankarpur Pm SADAK in the south .
- East – From the house of Nandkumar Nage situated in the corner of Shankarpur PM Sadak and NH 30 to pump house and from pamp house in south Direction to the house of Binjhwar Nishad on the corner of NH 30 and Korrabad gaon WBM Sadak.
- South- From Binjhwar Nishad's house situated in the corner of NH 30 and Korrabadgaon WBM Sadak to the west side of Trikutiof Korrabadgaon Reserve forest and Pharasgaon.
- West – From the Trikuti of Korrbadgaon Reserve forest and Pharasgaon to Pharasgaon of Jhadu Ram kurre situated in North Direction on the shankarpur PM SADAK from here to East direction up to the house of Vayal Rabart situated on the dI corner of PM Sadak and forest road

WARD-06 PRIYA DARSHANI INDIRA GANDHI WARD

- North – From Van Aushadhalay situated on the corner of NH 30 and Bazar road to the East Direction up to the house of Sukaro Yadav on the Bazar road. from here in the South Dircetion up to the house of Manki Mandavi from here in the North Direction up to the house of Sada Ram dhruv. fromhere in the east Direction up to the house of Mansha Ram Markar on C.C. Raod Join to mandi.
- East- From the house of Mansha Ram Markam on the C.C.Road to wards Mandi up to the house of Dharam Mandavi in south direction situated on the C-C Road in mandi From Join on ward to the TankDam to the South Direction up to the house of mani kanchan kendra situated on the Gatti palna SADAK (on the Pharasgaon and Gattipalana bordea).
- South – On the Border of Nagar panchayat Pharasgaon and Gattipalana of PM Sadak from Mani kanchan kendra to the West side Khasra NO. 66/56 Bhagirati and Khasra No. 66/1 Praveer Badesha's field towards Nh-30 and Gattipalana PM Sadak up to tahasil office in the corner .
- West- From tahsil office situated in the corner of gattipalana PM sadak to the north side towards pump house NH-30 bazar road up to office of van Aushadhlay situated on NH 30.

WARD NO.-07 MA DURGA MANDIR WARD

- North – From jairam selun and the house of bital bai situated on the corner of Nh-30 and Makadi road up to dhansingh hidko house in the ma durga mandir gali on makdi road.
- EAST- From dhansingh hidko house situated in the corner of Makadi road and Maa durga mandir gali up to takur ram and madhukar salam house in Ma Durga lane in south from here towards east from manku markam , Jagdish sori's house upto jagat pujari house in the Bazar road from here in the south direction upto the house of Rabia Khan in the bazar road and to the house of SadaramDhruv in the east
- South- In the west side from the house of Sadaram dhruv up the house of Manaki Mandavi from here in the north upto the house of sukaro yadav at bazar road from here in the west upto forest aushadha lay office situated on the corner of NH-30 and bazar road.
- WEST— from forest Aushadhalay office situated on the corner of NH-30 and bazar road to the north side and through NH-30 upto jairam selun and thehouse of bital bai situated at the corner of NH-30 and Makadi road.

WARD NO.-08 MAA GAYARTII MANDIR WARD

- North – From the house of dhansingh hidko Situated at the corner of Makadi Road and Maa Durga Lane to the house of Budh Ram Kashyap at the Makadi Road inEast.
- East- From the house of Budh Ram Kashyap at the Makadi Road upto the house of Vipin Bajpai in the South.
- South- From the house of Vipin Bajpai to the house of Sada Ram Druw in the West.From the house of Sada Ram Druw to the house of Rabiya Khan at Bazaar Road.
- West – In the East from the house of Rabiya Khan at Bazar Road to the house of Jagat pujari at Bazar Road in North from here to the West side to the house of Jagdish Sori and madhukar salam towards the house of takur ram at Maa Durga Lane From here to the North upto the house of dhansingh hidko situated the corner of Maa Durga Lane and Makadi Road.

WARD NO.09 ATAL BIHARI BAJPAI WARD

- North – From the house of Somari Bai Netam which is Situated in Makadi Road and from East makadi Road and corner of C.C. road where in krishna korram's house situated .
- East - Form the house of krisna korram up corner of makadi Road and C.C. road where Sawant Ram Hidko's house situated and from his house East side drange canal up to West side dam.
- South - From drange canal and dam up to west side Corner of mandi C.C.road where the house of Dhanesh Jain situated.
- West - Form the house of Dhanesh Jain and mandi C.C.road in north where the house of mansha Ram Markam's and Vipin Bajpai's house situated up to Somari Bai's house.

WARD NO. 10 MAHARAJA PRAVIR CHAND BHANJ DEW EE /**WARD**

- North- From Mehtar's house R.E.S. Colony road east side wards R.E.S.Colony khasra No. 12/10 sop sing's field which is situated here Chichadi river.
- East - From sopsing's field and close to chichadi river khasra No12/12 mehtar's field No. 12/3 Gillu's field No. 13/01 mehru's field which is close to makadi road .
- South – From mehru's field close to makadi road towards west Side K.N. 19/15 panchu Ram's K.N. 81/2 Gando Ram's To Gattipalna P.M. Road near Ghanshyam salam's house .
- West – From the mani Kanchan Kendra which is located at the cross road Between Gattipalna Road and Chongi Bharri Road, To words the North direction up to the Dam on the pond, From here to wards the East along with drainage system up to Sawant Ram Hidko's house, From here up to the cross road between Makadi Road and Mandi C.C. Road along with C.C. Road, From here To wards the west Livection up to Jalam Singh's House which is Located at the Cross road Between Makdi Road and R.E.S. Colony Road, From Here To wards the North Direction Up to Mehattar Ram's House which is located Beside R.E.S. Colony Road.

WARD NO. 11 JAI BUDHA DEV WARD

- North – In the Boundary line of village Patla & chichadi nala khasra No.-3 from the field of Manglu Ram to the east direction via going to chichadi nala 4/11 khasra . Field of sukhabindar 4/11 to Malvindar 's field kha. No.4/25the field of Hariram & khasra No. 4/16 up to he field Sukhlal .
- East- Near chichadi nala K.N. 12/10 from the field of SopSing to the south direction via going from R.E.S. colony and by the road side p to sopsing's house .From the road of Makadi road and R.E.S. colony to the corner of the Jalam Sing's house in the south .
- South – N.H. -30 and R.E.S. colony's corner situated house 's of Jalam sing and Mani Ram Netam to the west direction via up to Makadi road situated Society Chowk Chouraha .
- West – Going from Makadi road and society chowk (Chouraha) to The North direction the house of Motilal Netam and Budhram kotwar from Kavilas Thakur's house to Rohit's House here from village Patla and chichadi nala's boundary K.N. -3 up to Manglu Ram's field.

WARD NO. 12 VORANGANA RANI DURGAVATI WARD

EE/

- North – Form the Primary school which is Located Near the Cross road Between N.H. – 30 and Julnadihi, and sukalu Ram'S house Towards the East direction up to Jangalu's Farm. (4/9)
- East – In the boundary line of Patla and Pharasgaon K.N. 4/9 From Janglu's field to the south direction up to Rohit's House from here to Makdi road and Socity Chowk (Chouraha).
- South – From Makdi road and Society Chowk Chouraha in west Direction to the corner of Makdi and N.H.- 30 is situated To the selun shop of JayRam .
- West – From the corner of JayRam's selun shop in Makadi road And N.H.-30 to the North direction N.H.- 30's side is situate Primary School and of to Sukalu Ram's house.

WARD NO. 13 NETAJI SHUBHAS CHANDRA BOSE WARD

- North – Near chichadi river Pharsgaon, in the East direction Chichadi and TondePara (Pasangi) trikuti to Chichadi, Bangaon and Tonde Para (Pasangi)'s trikuti. Here upto In East direction via mehattar ram gali and Parrebangaon WBM road and bangaon Sarhadi gali tringle. Here upto Kurmikote gali and bangaon tringles Tijobai home.
- East Form the corner of road and Tijo Bai's house to South Direction by walking distance to the small bridge situated near of haldev pande's field.
- South Form Rapta situated in near of Haldev pande's field, Pharsgaon-Makadi road to the West Direction via Pharsgaon-Makdi road, to janglu's field, Control line of Pharsgaon, khasara no. 17/2.
- West - at the boundry of pharsgaon situated on makri road to the north direction near Border point Khasara No. 17/2 janglu's field to via chichadi river near chichadi river pharsgaon, chichadi and tondepara trikuti.

WARD NO.14 MAA TELIN SATI WARD

- North – Bangaon WBM road to Bhakturam and Nathlus house to Bangaon WBM road via Bangaon boundry Tringle situated Kaushik house, here upto near bhanvardihi river situated Bangaon, Barkai, Pasangi trikuti
- East – Bangaon situated near Bawardig river , from the Trikuti of Barkai Pasangi to the south direction to Bhawardig river to Pharsgaon up to Bhawardig bridge situated on Makadi road .
- South – In Pharsgaon to Makari road situated Bhawardig bridge to the West direction via Makadi Pharsgaon road to the Baijnath's house .
- West- Baijnath's house situated at Makadi and Pharsgaon Road to the North direction going through narrow gali to WBM roads Bhakturam and Nathalus house.

WARD NO. 15 MAHARANA PRATAP WARD

- North – Situated near the boundary point of Pharsgaon Makadi road K.N. 17/2 field of Janglu to the east direction via small bridge in Makadi road From here to the North direction Bangaon WBM road to Kurmikote gali situated Tijobais house to in east direction via WBM road to Bangaon border point WBM road and Saradu gali triangle to Bhaktu and Nathlus house.
- East - Bangaon boundary and WBM road's side situated Saradu gali triangles Bhaktu and Nathalu's house to South direction via Makadi road and Saradu gali triangles Rameshwars house, Here from east direction up to Bhavandihii bridge and in south direction via Bhavardihi river bridge situated Barkai Jungdai and Pasangi.
- South – Near Bhawardig river is situated Barkai, Jungdai and Pasangi's Trikuti to the west direction via Jungdai and Pasangi border point to Chichadi rivers near situated Jungdai, Gattipalna, Pasangis trikuti.
- West- Near at Chichadi river Jungdai and Pasangi, Gattipalnas trikuti to north direction via Chichadi river Makadi roads Pharsgaon border point meet point khasra no 17/02 Junglqo's farm.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R.EKKA, Deputy Secretary.